



दिनांक-28/12/2020

थाना मौदहा

## 132 किलो अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

थाना मौदहा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की गांजा के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के द्वारा आंध्र प्रदेश से गांजा ला करके आसपास के क्षेत्र में फुटकर सप्लाई की जा रही है। इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि एक कंटेनर ट्रक में सामानों के मध्य गांजा रख कर के लाया गया है तथा गुप्ता पेट्रोल पंप बड़ा चौराहा मौदहा पर ट्रक खड़ा हुआ है, जहां से छोटे वाहन से गांजा की तस्करी में संलिप्त लोग ले जाने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर योजनाबद्ध तरीके से खड़े हुए ट्रक कंटेनर की निगरानी की गई लेकिन पुलिस की उपस्थिति की आहट पाकर ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक से माल निकाल कर ले जाने वाले लोग अपना मोबाइल बंद करके यहां से हट गए। पुलिस द्वारा ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक की देखभाल के लिए मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि इसमें 4 बोरों में भरकर अवैध गांजा आंध्र प्रदेश से लाया गया है जिसको यहां से छोटे वाहन से तिंदवारी जनपद बांदा जाना था, लेकिन पुलिस के आ जाने के कारण मेरे साथी भाग गए हैं। इस सूचना से प्रभारी निरीक्षक मौदहा द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया मौके पर क्षेत्राधिकारी मौदहा व ट्रक मालिक के कर्मचारी इरफान तथा पेट्रोल पंप के मालिक और मैनेजर की उपस्थिति में कंटेनर ट्रक का ताला तोड़कर चेक किया गया तो कंटेनर में पेपर रोल के बड़े-बड़े बंडलों के मध्य 4 बोरों में 66 पैकेट अवैध गांजा बरामद हुआ। प्रत्येक पैकेट का वजन 2 किलोग्राम है कुल 132 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ पर पकड़े गए व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि हम लोगों के द्वारा यह गांजा आंध्र प्रदेश से खरीद करके इस ट्रक में ड्राइवर के सहयोग से रखा गया था हमारा एक साथी बबलू ट्रक के साथ में वहां से आया था हम लोग दूसरे साधनों से आकर के छोटे वाहन से कंटेनर ट्रक से गांजा निकालकर तिंदवारी व बांदा में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करते हैं।

### गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पता:-

1-रमेश गुप्ता पुत्र बलभद्र निवासी संतोषी नगर तिंदवारी थाना तिंदवारी जनपद बांदा

### फरार व्यक्तियों का नाम पता:-

1- जितेंद्र कुमार पुत्र रामबाबू निवासी कुनेहटा थाना विवार जनपद हमीरपुर ट्रक ड्राइवर

2-बबलू गुप्ता पुत्र अज्ञात निवासी बेन्दा घाट थाना तिंदवारी जनपद बांदा

3-निलेश पुत्र अज्ञात निवासी गरोति थाना तिंदवारी जनपद बांदा

4-रमेश गुप्ता तथा बबलू गुप्ता की पत्नी व नीलेश की लड़की

### बरामदगी का विवरण:-

1-4 बोरों में 2-2किलो के 66 पैकेट कुल 132 किलो गांजा

2-एक कंटेनर ट्रक

3-फरार ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस

4-अवैध गांजा के व्यापार में प्रयोग होने वाला एक मोबाइल

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- प्रभारी निरीक्षक मौदहा मनोज कुमार शुक्ला

2-उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह 3-कांस्टेबल अमित कुमार

4-कांस्टेबल आशीष कुमार

5-महिला आरक्षी साक्षी दुबे

